



# IBPS PO PRE 2023

**MATHS** **PAPER-4**

# 7 MOCK TEST

## दिन लगातार

**EXAM** से पहले जरूर देख लो

LIVE 01:00 PM





# IBPS PO Pre MOCK TEST



Question 1– The price of sugar decreased by 20%. Now a person can buy 5 kg more sugar for Rs 320. Find original price of sugar per kg.

प्रश्न 1– चीनी की कीमत में 20% की कमी आई है। अब एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिये।

A.20

B.21

C.18

D.16



Question 2– A person have Rs 16,000 a part of it he lent at 4% and rest at 5% per annum simple interest. At the end of years he received Rs 700 as interest. Find the money lent at 4%.

प्रश्न 2- एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये है उसने एक भाग 4% की दर से उधार दिया है और शेष 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया है। वर्षों के अंत में उन्हें ब्याज के रूप में 700 रुपये मिले। 4% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिये।

A. Rs. 8000

B. Rs. 12,000

C. Rs 6000

D. Rs

10,000

E. None of




# IBPS PO Pre MOCK TEST



Question – The bar graph given below shows the profit percent of companies A, B, C and D.

प्रश्न – नीचे दिया गया बार ग्राफ कंपनी A, B, C और D के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है।






# IBPS PO Pre MOCK TEST



- A. Rs 160000
- B. Rs 120000
- C. Rs 180000
- D. Rs 150000
- E. None of these

Question 3- If the income of company A is Rs 21600 then find the expenditure of company A?

प्रश्न 3- यदि कंपनी A की आय 21600 रुपये है तो कंपनी A का व्यय ज्ञात कीजिये?






- A.3:4
- B.3:5
- C.5:4
- D.1:2
- E.None of these

Question 4– If expenditure of company B is equal to the income of company C then find ratio of income of company B and C.

प्रश्न 4 - यदि कंपनी B का व्यय कंपनी C की आय के बराबर है तो कंपनी B और C की आय का अनुपात क्या होगा?





Question 5-  $2811 \times 456 \div 3 - 412 \times 4$   
 $+\sqrt{1296} = ?$

- A. 425660
- B. 424440
- C. 432460
- D. 556740
- E. None of these





Question 6-  $466.633 + 536.66 - 777.333 - 43.66 = ?$

- A. 190.300
- B. 192.400
- C. 182.300
- D. 112.300
- E. None of these





Question 7- A person swims from point P against current for 5 minutes and returns downstream in next 5 minutes and reaches to point R. If distance between P to R is 100 meter then find the speed of current in km/h.

एक व्यक्ति बिंदु P से धारा के विपरीत 5 मिनट तक तैरता है और अगले 5 मिनट में धारा के अनुकूल लौटता है और बिंदु R तक पहुँचता है। यदि P से R के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो धारा की गति किमी/घंटा में ज्ञात कीजिये।

A. 2 km/h

B. 0.2 km/h

C. 0.4 km/h

D. 0.6 km/h

E. None of these



Question 8- P, Q and R can do a piece of work in 60 days. P and R is twice efficient as Q and P and Q is three times as efficient as R. Find in how much time R alone can do the whole work?

प्रश्न 8- P, Q और R एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। P और R, Q और P से दोगुने कुशल हैं और Q, R से तीन गुना कुशल है। ज्ञात कीजिये कि R अकेले पूरे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है?

A. 100 days

B. 24 days

C. 144 days

D. 120 days

E. None of

these



Question 9-  $20^2 + 7^3 + 256^{\frac{1}{4}} = x^2 - (6^2 + 1)$

A.38

B.48

C.28

D.58

E.None of these



# IBPS PO Pre MOCK TEST



Question 9- 85% of 2400 + 88% of 15625 – 20% of 1200 + 37.5% of 1512

प्रश्न 9- 2400 का 85% + 15625 का 88% – 1200 का 20% + 1512 का 37.5%

A.15117

B.21167

C.22117

D.16117

E.None of these

